

## प्रेस नोट

दिनांक 17.11.2022

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

“नशा मुक्त अमेठी अभियान” के अन्तर्गत थाना पीपरपुर पुलिस व एसओजी/सर्विलांस अमेठी द्वारा 88 किलोग्राम अवैध गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग रुपए 16 लाख) के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व “नशा मुक्त अमेठी अभियान” के तहत दिनांक 16.11.2022 को प्रभारी निरीक्षक थाना पीपरपुर श्री धीरेन्द्र कुमार यादव मय हमराही देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन दुर्गापुर चौराहे पर मौजूद थे कि वहीं पर निरीक्षक श्री धीरेन्द्र कुमार वर्मा प्रभारी स्वाट टीम अमेठी मय हमराही पहुंचकर आपस में अभियान के संबन्ध में बातचीत कर रहे थे कि तभी स्वाट टीम प्रभारी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ट्रक यूपी 63 टी 1481 पर अवैध सामान की तस्करी कर जनपद सुल्तानपुर से जनपद प्रतापगढ़ की तरफ ले जाया जायेगा, इस सूचना पर थाना पीपरपुर व स्वाट टीम की संयुक्त टीमों द्वारा दुर्गापुर बाजार में कोल्ड स्टोर के पास वाहनो की चेकिंग की जाने लगी, समय करीब 10:30 बजे रात्रि सुल्तानपुर की तरफ से ट्रक संख्या यूपी 63 टी 1481 आने पर पुलिस टीमो द्वारा हिकमत अमली से रोककर चेक किया गया तो ट्रक के केविन में रखे 16 बन्डलों में रखा पदार्थ बरामद हुआ। जिसके संबन्ध में ट्रक चालक से पूछताछ करने पर बताया कि मेरा नाम विपिन सिंह पुत्र छब्बन सिंह नि0 घोसवा थाना कन्दवा जनपद चन्दौली बताया एवं इन 16 बण्डलों में कुल 88 किग्रा0 गांजा है जिसका मेरे पास कोई कागज नहीं इसे मैं पश्चिम बंगाल से अवैध तरीके से छिपा कर ला रहा था इसे मुझे प्रतापगढ़ में मोबाइल नम्बरों से बात करके देना था। अभियुक्त को मौके पर ही नियमानुसार हिरासत पुलिस में व माल व ट्रक को कब्जा पुलिस में लेकर उपरोक्त संयुक्त टीमो द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी। प्रकरण के संबन्ध में थाना पीपरपुर पुलिस द्वारा अन्य विधिक कार्यावाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- विपिन सिंह पुत्र छब्बन सिंह नि0 घोसवा थाना कन्दवा जनपद चन्दौली उम्र करीब 30 वर्ष।

### बरामदगी-

- 88 किग्रा0 अवैध गांजा अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 16/- लाख रुपए।

### पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

1. मु0अ0सं0 163/22 धारा 8/20/23 एनडीपीएस एक्ट थाना पीपरपुर जनपद अमेठी।
2. ट्रक संख्या यूपी 63 टी 1481 (207 एमवी एक्ट)

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

#### थाना पीपरपुर-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धीरेन्द्र कुमार यादव थाना पीपरपुर जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 पवन कुमार मिश्रा
3. उ0नि0 प्रेमचन्द्र गौतम
4. हे0का0 संजय कुमार
5. हे0का0 नीरज यादव

#### स्वाट टीम/सर्विलांस जनपद अमेठी-

1. निरीक्षक श्री धीरेन्द्र कुमार वर्मा प्रभारी स्वाट टीम
2. हे0का0 मतलूब अहमद
3. का0 नरेन्द्र मिश्रा
4. का0 अमित मिश्रा
5. का0 अंकित दीक्षित
6. का0 अवनैश